

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग,

देहरादून: दिनांक 19 जनवरी, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड हेतु विभिन्न योजनाओं में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2162-63/अनुपूरक मांग बजट/4602/17-18, दिनांक 07.11.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड की विभिन्न योजनाओं हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्या-15 में धनराशि ₹ 234490000/-, अनुदान संख्या-30 में धनराशि ₹ 2652000/- एवं अनुदान संख्या-31 में धनराशि ₹ 3000000/- अर्थात् कुल धनराशि ₹ 24,01,42,000/- (₹ चौबीस करोड़ एक लाख बयालीस हजार मात्र) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 एवं शासनादेश संख्या 1362/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 27.12.2017 में निहित निम्न प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त मद में धनराशि व्यय किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित की बचत सुनिश्चित की जायेगी।
3. भारत सरकार द्वारा आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर की व्यवस्था समाप्त कर राजस्व तथा पूंजी की व्यवस्था अपनायी गयी है। राज्य सरकार द्वारा भी लेखानुदान राजस्व तथा जीज के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया गया है।
4. कृपया यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आप अपने अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारी को भी साफ्टवेयर के माध्यम से ही बजट जारी करते हुए आवंटन किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि आवंटित की गई हो। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।
6. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिये कदापि न छोड़ी जाय।



2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

26 - मानव सहयोग योजना (90 प्रतिशत के0स0) (आई0सी0डी0एम0 योजना)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
04 - यात्रा व्यय	150000	500000	650000
07 - मानदेय	1000000	2500000	3500000
08 - कार्यालय व्यय	200000	500000	700000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	200000	200000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300000	1250000	1550000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	300000	300000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	500000	500000
17 - किराया, उपभूक्त और क.अ.न	150000	0	150000
18 - प्रकाशन	0	4000000	4000000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	0	500000	500000
42 - अन्य व्यय	21526700	6500000	28026700
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	2000000	2000000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	2679000	2679000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	650000	650000
	23326700	22079000	45405700

5: लेखा शीर्षक

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

33 -

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
42 - अन्य व्यय	0	3564000	3564000
	0	3564000	3564000

6: लेखा शीर्षक

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

03 - परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्पाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास पोषाहार

03 - पुष्पाहार कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार, पोषाहार हेतु ईंधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था (आई0स0)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
07 - मानदेय	640000000	152800000	792800000
	640000000	152800000	792800000

102 - बाल कल्याण

15 - निदेशानुय हेतु अनिरीकत स्टाफ की व्यवस्था

00 - निदेशानुय हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनिरीकत स्टाफ की व्यवस्था

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	3836000	1500000	5336000
02 - मजदूरी	75000	0	75000
03 - महंगाई भत्ता	230000	105000	335000
04 - यात्रा व्यय	50000	0	50000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50000	0	50000
06 - अन्य भत्ते	269000	188000	457000
07 - मानदेय	50000	0	50000
08 - कार्यालय व्यय	150000	0	150000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50000	0	50000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	330000	0	330000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	680000	120000	800000
27 - विविध व्यय प्रतिपूर्ति	150000	0	150000
	5920000	1913000	7833000

8: लेखा शीर्षक

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

103 - महिला कल्याण

10 - राज्य महिला आयोग की स्थापना

00 - राज्य महिला आयोग की स्थापना

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	1208000	100000	1308000
02 - मजदूरी	200000	0	200000
03 - महंगाई भत्ता	72000	25000	97000
04 - यात्रा व्यय	450000	0	450000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50000	0	50000
06 - अन्य भत्ते	85000	100000	185000
07 - मानदेय	3000000	0	3000000
08 - कार्यालय व्यय	150000	0	150000
09 - विद्युत देय	1000	0	1000
10 - जलकर / जल प्रभार	1000	0	1000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की ख	250000	0	250000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	150000	0	150000
13 - टेलीफोन पर व्यय	150000	0	150000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	400000	0	400000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	3812000	0	3812000
18 - प्रकाशन	150000	0	150000
19 - विज्ञापन, विक्री और विख्यापन	200000	0	200000
22 - आनिध्य व्यय विषयक भना आ	200000	0	200000
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण औ	100000	0	100000

03 - महंगाई भत्ता	144000	30000	174000
04 - यात्रा व्यय	100000	0	100000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100000	0	100000
06 - अन्य भत्ते	167000	79000	246000
07 - मानदेय	50000	0	50000
08 - कार्यालय व्यय	50000	0	50000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	70000	0	70000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300000	0	300000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	200000	0	200000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	2000000	0	2000000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	200000	0	200000
42 - अन्य व्यय	40000	0	40000
44 - प्रशिक्षण व्यय	300000	0	300000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	60000	0	60000
46 - कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	200000	0	200000
47 - कंप्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	300000	0	300000
	6824000	1209000	8033000

3: लेखा शीर्षक

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

04 - समन्वित बाल विकास के लिए जिला स्तरीय स्टाफ की व्यवस्था (90% केंद्र) (आई0मी0डी0एम0 योजना)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	26480000	12400000	38880000
02 - मजदूरी	500000	0	500000
03 - महंगाई भत्ता	1589000	1000000	2589000
04 - यात्रा व्यय	300000	0	300000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	200000	0	200000
06 - अन्य भत्ते	1853000	0	1853000
08 - कार्यालय व्यय	250000	0	250000
10 - जलकर / जल प्रभार	100000	0	100000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	200000	0	200000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000000	0	1000000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्र	500000	0	500000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	850000	0	850000
18 - प्रकाशन	500000	0	500000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	500000	0	500000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300000	0	300000
42 - अन्य व्यय	100000	0	100000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	100000	0	100000
46 - कंप्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कंप्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	200000	0	200000
	35622000	13400000	49022000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, ICDS (S022)

आवंटन पत्र संख्या - 94/XVII(4)/2018-2(10)/17

अनुदान संख्या - 015

अलोटमेंट आई डी - S1801150282

आवंटन पत्र दिनांक -18-Jan-2018

HOD Name - Director I C D S (4166)

- 1: लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 - समाज कल्याण
 102 - बाल कल्याण
 01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
 02 - समन्वित बाल विकास योजना(90% के0म0) (आई0सी0डी0एस0 योजना)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	372121000	38800000	410921000
02 - मजदूरी	1500000	0	1500000
03 - महंगाई भत्ता	22325000	0	22325000
04 - यात्रा व्यय	3000000	0	3000000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	500000	0	500000
06 - अन्य भत्ते	26046000	0	26046000
07 - मानदेय	800000000	0	800000000
08 - कार्यालय व्यय	1500000	0	1500000
10 - जलकर / जल प्रभार	400000	0	400000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	1000000	0	1000000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2000000	0	2000000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट	2000000	0	2000000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	10000000	0	10000000
17 - किराया, उपशल्क और कर-स्व	70000000	0	70000000
20 - महायक अनुदान/अंशदान/राज	17000000	0	17000000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	500000	0	500000
26 - मशीनें और मज्जा /उपकरण औ	10000000	0	10000000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	2000000	0	2000000
31 - सामग्री और सम्पत्ति	1760000000	0	1760000000
42 - अन्य व्यय	16000000	0	16000000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	400000	0	400000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	1000000	0	1000000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	1000000	0	1000000
	3120292000	38800000	3159092000

- 2: लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 - समाज कल्याण
 102 - बाल कल्याण
 01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
 03 - निदेशालय,आई0सी0डी0एस0 की स्थापना (90% के0म0) (आई0सी0डी0एस0 योजना)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	2393000	1100000	3493000
02 - मजदूरी	150000	0	150000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, ICDS (S022)

आवंटन पत्र संख्या - 95/XVII(4)/2018-2(10)/17

अलोटमेंट आई डी - S1801300283

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक - 18-Jan-2018



HOD Name - Director I C D S (4166)

- 1: लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 - समाज कल्याण
102 - बाल कल्याण
02 - अनु0जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट फ़न्ड
02 - समन्वित बालविकास परियोजनाओं पर दिये जाने वाला पुष्टाहार (आई0सी0डी0एस0 योजना)

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted योग
07 - मानदेय	90000000	2652000	92652000
	90000000	2652000	92652000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

2652000



(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।


27 - चाकला व्यय प्रतिपात	100000	0	100000
42 - अन्य व्यय	300000	0	300000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	50000	0	50000
46 - कम्प्युटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	70000	0	70000
47 - कम्प्युटर अन्वक्षण/तत्सम्बन्धी	50000	0	50000
	11199000	225000	11424000

9: लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 - समाज कल्याण
 103 - महिला कल्याण
 23 - निर्भया योजना
 00 - -

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
42 - अन्य व्यय	5000000	500000	5500000
	5000000	500000	5500000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 234490000


 (लक्ष्मण सिंह)
 संयुक्त सचिव।
 or


लेखा शीर्षक 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02 - समाज कल्याण
 796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना
 01 - केन्द्र द्वारा पुनोनिधानित योजना
 02 - पुष्पाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया जाने वाला पोषाहार (आई0मी0डी0एस0 योजना) (90 प्रतिशत के0स0)

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	10000000	3000000	13000000
02 - मजदूरी	60000	0	60000
03 - महंगाई भत्ता	1000000	0	1000000
04 - यात्रा व्यय	250000	0	250000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	125000	0	125000
06 - अन्य भत्ते	1400000	0	1400000
07 - मानदेय	36000000	0	36000000
08 - कार्यालय व्यय	60000	0	60000
09 - विद्युत देय	50000	0	50000
10 - जलकर / जलभार	15000	0	15000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	50000	0	50000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100000	0	100000
13 - टेलीफोन पर व्यय	50000	0	50000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	670000	0	670000
17 - किराया, उपशल्क और कर-स्व	1200000	0	1200000
18 - प्रकाशन	15000	0	15000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	15000	0	15000
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण औ	619000	0	619000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	150000	0	150000
31 - सामग्री और सम्पत्ति	90000000	0	90000000
42 - अन्य व्यय	1921000	0	1921000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	30000	0	30000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कम्प्यूटर अन्वेषण/तत्सम्बन्धी	50000	0	50000
	143930000	3000000	146930000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

3000000


 (लक्ष्मण सिंह)
 सयुक्त सचिव।
